



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1714]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2008/अग्रहायण 17, 1930

No. 1714]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2008/AGRAHAYANA 17, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2849(अ).—तम्बाकू बोर्ड नियमावली, 1976 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्षों की अवधि के लिए तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण) की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. का.आ. 5417, तारीख 17 दिसम्बर, 1975 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ड) के अंतर्गत नियुक्त" शीर्षक के अन्तर्गत,—

(i) क्रम संख्या 15 से 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"15. श्री जी शिवराम प्रसाद, — सदस्य (तम्बाकू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए)  
मल्कापुरम  
मंदादम (पोस्ट)  
तुल्लुरु (मंडल)  
जिला गुण्टूर, आंध्र प्रदेश

16. श्री बी पापन्ना — सदस्य (तम्बाकू उत्पादकों/निर्यातकों/प्रसंस्कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए)  
पूर्व विधायक,  
संतेकरे कोडी, रत्नापुरी,  
हुंसुर तालुक,  
जिला मैसूर, कर्नाटक

17. श्री एच सी शिवण्णा — सदस्य (तम्बाकू उत्पादकों/निर्यातकों/प्रसंस्कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए);  
ग्राम होसाहल्ली  
डाकघर अण्णूर  
एच डी कोटे तालुक  
जिला मैसूर, कर्नाटक

(ii) क्रम संख्या 23 से 24 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"23. श्री डी एम अबू मोहम्मद — सदस्य (तम्बाकू उत्पादकों/निर्यातकों/प्रसंस्कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए)  
सं. 11/ए, एच आई जी न्यू,  
सेकेण्ड क्रॉस,  
बड़ा मकान एक्सटेंशन,  
मैसूर-570007, कर्नाटक

24. श्री जी जगन्नाथ राव — सदस्य (तम्बाकू निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए)।  
डी नं. 4-304, फर्स्ट लाइन  
पण्डारीपुरम  
चिकालूरीपेट-522616  
जिला गुण्टूर, आंध्र प्रदेश

[फा. सं. 8/4/2003-ईपी (एग्री-VI)]

दिनेश शर्मा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** मुख्य अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 के सं. का.आ. 5417, द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा उसमें संशोधन किया गया था :—

- (i) का.आ. 110(अ), दिनांक 19-2-1979;
- (ii) का.आ. 112(अ), दिनांक 1-3-1982;
- (iii) का.आ. 651(अ), दिनांक 4-9-1985;
- (iv) का.आ. 832(अ), दिनांक 2-9-1988;
- (v) का.आ. 1158(अ), दिनांक 7-12-1988;
- (vi) का.आ. 376(अ), दिनांक 10-5-1990;
- (vii) का.आ. 678(अ), दिनांक 4-9-1990;
- (viii) का.आ. 934(अ), दिनांक 5-12-1990;
- (ix) का.आ. 569(अ), दिनांक 4-1-1991;
- (x) का.आ. 887(अ), दिनांक 20-12-1991;
- (xi) का.आ. 412(अ), दिनांक 9-6-1992;
- (xii) का.आ. 654(अ), दिनांक 2-8-1994;
- (xiii) का.आ. 197(अ), दिनांक 14-3-1995;
- (xiv) का.आ. 495(अ), दिनांक 1-6-1995;
- (xv) का.आ. 238(अ), दिनांक 19-3-1996;
- (xvi) का.आ. 802(अ), दिनांक 19-11-1996;
- (xvii) का.आ. 313(अ), दिनांक 8-4-1997;
- (xviii) का.आ. 663(अ), दिनांक 16-9-1997;
- (xix) का.आ. 501(अ), दिनांक 10-6-1998;
- (xx) का.आ. 588(अ), दिनांक 14-7-1998;
- (xxi) का.आ. 620(अ), दिनांक 23-7-1998;
- (xxii) का.आ. 736(अ), दिनांक 28-8-1998;
- (xxiii) का.आ. 510(अ), दिनांक 24-7-2001;
- (xxiv) का.आ. 85(अ), दिनांक 18-1-2002;
- (xxv) का.आ. 531(अ), दिनांक 16-5-2002;
- (xxvi) का.आ. 453(अ), दिनांक 20-5-2002;
- (xxvii) का.आ. 332(अ), दिनांक 17-3-2005;
- (xxviii) का.आ. 865(अ), दिनांक 16-6-2005;
- (xxix) का.आ. 1006(अ), दिनांक 14-7-2005;
- (xxx) का.आ. 74(अ), दिनांक 10-1-2008; और
- (xxxi) का.आ. 2180(अ), दिनांक 10-9-2008।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2008

**S.O. 2849(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), read with rules 3 and 4 of the Tobacco Board Rules, 1976, the Central Government hereby appoints the following persons to be the members of the Tobacco Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce (Tobacco Industry Development Control), number S.O. 5417, dated the 17th day of December, 1975, namely :—

In the said notification, under the heading “appointed under clause (e) of sub-section (4) of Section 4”,—

(i) for serial numbers 15 to 17 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

- “15. Shri G. Sivaram Prasad, —Member (to represent  
Malkapuram, Growers of Tobacco).  
Mandadam (Post), Tulluru  
(Mandal), Guntur District,  
Andhra Pradesh
16. Shri V. Papanna, Ex. MLA, — Member (to represent  
Santhekere Kodi, Ratnapuri Growers/Exporters/  
Hunsur Taluk, Processors of Tobacco).  
Mysore District,  
Karnataka
17. Shri H. C. Shivanna, —Member (to represent  
Hosahalli Village, Growers/Exporters/  
Annur Post, Processors of Tobacco);  
H. D. Kote Taluk,  
Mysore District, Karnataka

(ii) for serial numbers 23 to 24 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

- “23. Shri D.M. Abu Mohammed, —Member (to represent  
No. 11/A, HIG New, Growers/Exporters/  
2nd Cross, Bada Makan Processors of  
Extension, Mysore-570007, Tobacco).  
Karnataka
24. Shri G. Jagannatha Rao, —Member (to represent  
D. No. 4-304, 1st Line, Exporters of Tobacco).  
Pandariapuram  
Chikaluripet-522616,  
Guntur District,  
Andhra Pradesh

[F. No. 8/4/2003-EP(Agri. VI)]

DINESH SHARMA, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published *vide* No. S.O. 5417, dated the 17th day of December, 1975 and was subsequently amended *vide* the following, namely :—

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| (i) S.O. 110(E), dated 19-2-1979;    | (xvi) S.O. 802(E), dated 19-11-1996;    |
| (ii) S.O. 112(E), dated 1-3-1982;    | (xvii) S.O. 313(E), dated 8-4-1997;     |
| (iii) S.O. 651(E), dated 4-9-1985;   | (xviii) S.O. 663(E), dated 16-9-1997;   |
| (iv) S.O. 832(E), dated 2-9-1988;    | (xix) S.O. 501(E), dated 10-6-1998;     |
| (v) S.O. 1158(E), dated 7-12-1988;   | (xx) S.O. 588 (E), dated 14-7-1998;     |
| (vi) S.O. 376(E), dated 10-5-1990;   | (xxi) S.O. 620 (E), dated 23-7-1998;    |
| (vii) S.O. 678(E), dated 4-9-1990;   | (xxii) S.O. 736 (E), dated 28-8-1998;   |
| (viii) S.O. 934(E), dated 5-12-1990; | (xxiii) S.O. 510 (E), dated 24-7-2001;  |
| (ix) S.O. 569(E), dated 4-1-1991;    | (xxiv) S.O. 85 (E), dated 18-1-2002;    |
| (x) S.O. 887(E), dated 20-12-1991;   | (xxv) S.O. 531 (E), dated 16-5-2002;    |
| (xi) S.O. 412(E), dated 9-6-1992;    | (xxvi) S.O. 453 (E), dated 20-5-2002;   |
| (xii) S.O. 654(E), dated 2-8-1994;   | (xxvii) S.O. 332 (E), dated 17-3-2005;  |
| (xiii) S.O. 197(E), dated 14-3-1995; | (xxviii) S.O. 865 (E), dated 16-6-2005; |
| (xiv) S.O. 495(E), dated 1-6-1996;   | (xxix) S.O. 1006 (E), dated 14-7-2005;  |
| (xv) S.O. 238(E), dated 19-3-1996;   | (xxx) S.O. 74 (E), dated 10-1-2008; and |
|                                      | (xxxi) S.O. 2180 (E), dated 10-9-2008.  |